



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 07 मई, 2024 / 17 वैशाख, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

“निर्वाचन विभाग”

अधिसूचना

शिमला—171 009, 07 मई, 2024

संख्या 3—6/2024—ई.एल.एन.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 100/हि.प्र.—वि.स./1/2024, 100/हि.प्र.—वि.स./2/2024, 100/हि.प्र.—वि.स./3/2024, 100/हि.प्र.—वि.स./4/2024, 28—राजपत्र/2024—07—05—2024 (1097)

100/हि.प्र.-वि.स./5/2024 व संख्या 100/हि.प्र.-वि.स./6/2024, सभी दिनांक 07 मई, 2024, तदानुसार 17 वैशाख, 1946 (शक) जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 150, 30 और 56 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्रमशः 18-धर्मशाला, 21-लाहौल और स्पिति (अ.ज.जा.), 37-सुजानपुर, 39-बड़सर, 42-गगरेट व 45-कुटलैहड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों के कार्यक्रम से सम्बन्धित है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
मनीष गर्ग,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 7 मई, 2024
17 वैशाख, 1946 (शक)

सं. 100/हि.प्र.-वि.स./1/2024.—यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 18-धर्मशाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री सुधीर शर्मा का स्थान उनके अयोग्य घोषित होने के कारण दिनांक 29 फरवरी, 2024 को रिक्त हो गया है, और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के उक्त 18-धर्मशाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 6 जून, 2024 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; और

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

(क) नाम निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 14 मई, 2024 (मंगलवार);

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 15 मई, 2024 (बुधवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने हेतु अंतिम तारीख, 17 मई, 2024 (शुक्रवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 1 जून, 2024 (शनिवार);

(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 06 जून, 2024 (गुरुवार); और

(आ) 07.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 07th May, 2024
17 Vaisakha, 1946(Saka)

No. 100/HP-LA/1/2024.—WHEREAS, the seat of Sh. Sudhir Sharma, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from **18-Dharamshala** Assembly Constituency, has become vacant on **29th February, 2024** by reason of his disqualification; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) & (2) of Section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

A. calls upon the said 18-Dharamshala Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 6th June, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**

B. appoints, with respect to the said election:—

- (a) the 14th May, 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 15th May, 2024 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 17th May, 2024 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 01st June, 2024 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 6th June, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; **and**

- C. **fixes the hours** from **07.00 AM to 6.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 7 मई, 2024
17 वैशाख, 1946 (शक)

सं. 100/हि.प्र.-वि.स./2/2024.—यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 21—लाहौल और स्पिति (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री रवि ठाकुर का स्थान उनके अयोग्य घोषित होने के कारण दिनांक 29 फरवरी, 2024 को रिक्त हो गया है, और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

- (अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के उक्त 21—लाहौल और स्पिति (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 6 जून, 2024 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; और
- (ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:—
- (क) नाम निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 14 मई, 2024 (मंगलवार);
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 15 मई, 2024 (बुधवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने हेतु अंतिम तारीख, 17 मई, 2024 (शुक्रवार);
- (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 1 जून, 2024 (शनिवार);
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 06 जून, 2024 (गुरुवार); और
- (आ) 07.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 07th May, 2024
17 Vaisakha, 1946(Saka)

No. 100/HP-LA/2/2024.—WHEREAS, the seat of Sh. Ravi Thakur, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from **21-Lahaul & Spiti (ST)**, Assembly Constituency, has become vacant on **29th February, 2024** by reason of his disqualification; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) & (2) of Section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

- A. calls upon** the said 21-Lahaul & Spiti (ST), Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 6th June, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes of Himachal Pradesh State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**
- B. appoints**, with respect to the said election:—
- (a) the 14th May, 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 15th May, 2024 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 17th May, 2024 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 01st June, 2024 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
 - (e) the 6th June, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; **and**
- C. fixes the hours** from **07.00 AM to 6.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 7 मई, 2024
17 वैशाख, 1946 (शक)

सं. 100/हि.प्र.-वि.स./3/2024.—यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 37—सुजानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री राजेन्द्र राणा का स्थान उनके अयोग्य घोषित होने के कारण दिनांक 29 फरवरी, 2024 को रिक्त हो गया है, और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—
- (अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के उक्त 37—सुजानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 6 जून, 2024 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; और
- (ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:—
- (क) नाम निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 14 मई, 2024 (मंगलवार);
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 15 मई, 2024 (बुधवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने हेतु अंतिम तारीख, 17 मई, 2024 (शुक्रवार);
- (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 1 जून, 2024 (शनिवार);
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 06 जून, 2024 (गुरुवार); और
- (आ) 07.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 07th May, 2024
17 Vaisakha, 1946(Saka)

No. 100/HP-LA/3/2024.—WHEREAS, the seat of Sh. Rajinder Rana, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from 37-Sujanpur Assembly Constituency, has become vacant on 29th February, 2024 by reason of his disqualification; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) & (2) of section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

A. calls upon the said 37-Sujanpur, Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 6th June, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**

A. appoints, with respect to the said election:

- (a) the 14th May, 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 15th May, 2024 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 17th May, 2024 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 01st June, 2024 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 6th June, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; **and**

C. fixes the hours from **07.00 AM to 6.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 7 मई, 2024
17 वैशाख, 1946 (शक)

सं. 100/हि.प्र.-वि.स./4/2024.—यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 39—बड़सर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री इन्द्र दत्त लखनपाल का स्थान उनके अयोग्य घोषित होने के कारण दिनांक 29 फरवरी, 2024 को रिक्त हो गया है, और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

- (अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के उक्त **39—बड़सर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से यह **अपेक्षा करता है** कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 6 जून, 2024 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; **और**
- (ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:—
- (क) नाम निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 14 मई, 2024 (मंगलवार);
 - (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 15 मई, 2024 (बुधवार);
 - (ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने हेतु अंतिम तारीख, 17 मई, 2024 (शुक्रवार);
 - (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 1 जून, 2024 (शनिवार);
 - (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 06 जून, 2024 (गुरुवार); **और**
- (आ) **07.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक** का समय, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है** जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 07th May, 2024
17 Vaisakha, 1946(Saka)

No. 100/HP-LA/4/2024.—WHEREAS, the seat of Sh. Inder Dutt Lakhnupal, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from **39-Barsar** Assembly Constituency, has become vacant on **29th February, 2024** by reason of his disqualification; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) & (2) of Section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

A. calls upon the said 39-Barsar, Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 6th June, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**

B. appoints, with respect to the said election:

(a) the 14th May, 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations;

- (b) the 15th May, 2024 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 17th May, 2024 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 01st June, 2024 (Saturday), as the date on which a poll shall, necessary, be taken;
- (e) the 6th June, 2024 (Thursday), as the date before which the election be completed; **and**
- C. fixes the hours from 07.00 AM to 6.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.**

By order,
RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 7 मई, 2024
17 वैशाख, 1946 (शक)

सं. 100/हि.प्र.-वि.स./5/2024.—यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 42-गगरेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री चैतन्य शर्मा का स्थान उनके अयोग्य घोषित होने के कारण दिनांक 29 फरवरी, 2024 को रिक्त हो गया है, और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के उक्त 42-गगरेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 6 जून, 2024 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; और

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

- (क) नाम निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 14 मई, 2024 (मंगलवार);
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 15 मई, 2024 (बुधवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने हेतु अंतिम तारीख, 17 मई, 2024 (शुक्रवार);
- (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 1 जून, 2024 (शनिवार);
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 06 जून, 2024 (गुरुवार); और

(आ) 07.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 07th May, 2024
17 Vaisakha, 1946(Saka)

No. 100/HP-LA/5/2024.—WHEREAS, the seat of Sh. Chaitanya Sharma, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from **42-Gagret** Assembly Constituency, has become vacant on **29th February, 2024** by reason of his disqualification; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) & (2) of Section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

A. calls upon the said 42-Gagret, Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 6th June, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**

B. appoints, with respect to the said election:

- (a) the 14th May, 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 15th May, 2024 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 17th May, 2024 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 01st June, 2024 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 6th June, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; **and**

C. fixes the hours from **07.00 AM to 6.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 7 मई, 2024
17 वैशाख, 1946 (शक)

सं. 100/हि.प्र.-वि.स./6/2024.—यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में **45-कुटलैहड़** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित **श्री दविन्द्र कुमार (भुटो)** का स्थान उनके अयोग्य घोषित होने के कारण दिनांक **29 फरवरी, 2024** को रिक्त हो गया है, और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के उक्त **45-कुटलैहड़** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 6 जून, 2024 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; और

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

- (क) नाम निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 14 मई, 2024 (मंगलवार);
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 15 मई, 2024 (बुधवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने हेतु अंतिम तारीख, 17 मई, 2024 (शुक्रवार);
- (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 1 जून, 2024 (शनिवार);
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 06 जून, 2024 (गुरुवार); और

(आ) 07.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 07th May, 2024
17 Vaisakha, 1946(Saka)

No. 100/HP-LA/6/2024.—WHEREAS, the seat of Sh. Devinder Kumar (Bhutto), in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from **45-Kutlehar** Assembly Constituency, has become vacant on **29th February, 2024** by reason of his disqualification; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) & (2) of Section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

A. calls upon the said 45-Kutlehar, Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 6th June, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**

B. appoints, with respect to the said election:

- (a) the 14th May, 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 15th May, 2024 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 17th May, 2024 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 01st June, 2024 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 6th June, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; **and**

C. fixes the hours from **07.00 AM to 6.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

“निर्वाचन विभाग”

अधिसूचना

शिमला—171009, 07 मई, 2024

संख्या 3-6/2024-ई.एल.एन.—भारत सरकार, विधि और न्याय मन्त्रालय, विधायी विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या फा.सं.एच.—11024(4)/2023-वि-II और भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 464/ईपीएस/2024(7), दिनांक 07 मई, 2024, तदनुसार 17 वैशाख, 1946 (शक) जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14, 30 और 56 के अन्तर्गत, लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024

के सम्बन्ध में जारी की गई है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित की जाती है।

आदेश से

मनीष गर्ग
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2024
17 वैशाख, 1946 (शक)

का0आ0.....(अ)—सत्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर, नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी, यथास्थिति, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट की गई उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार, सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करती हैं:—

राज्य	संसदीय क्षेत्र
(1)	(2)
बिहार	29—नालन्दा
	30—पटना साहिब
	31—पाटलिपुत्र
	32—आरा
	33—बक्सर
	34—सासाराम (अ.जा.)
	35—काराकाट
	36—जहानाबाद
हिमाचल प्रदेश	1—कांगड़ा
	2—मण्डी
	3—हमीरपुर
	4—शिमला (अ.जा.)
झारखंड	1—राजमहल (अ.ज.जा.)
	2—दुमका (अ.ज.जा.)
	3—गोड्डा

ओडिशा	5—मयूरभंज (अ.ज.जा.)
	6—बालासोर
	7—भाद्रक (अ.जा.)
	8—जाजपुर (अ.जा.)
	15—केंद्रपाड़ा
	16—जगतसिंहपुर (अ.जा.)
पंजाब	1—गुरदासपुर
	2—अमृतसर
	3—खडूर साहिब
	4—जालन्धर (अ.जा.)
	5—होशियारपुर (अ.जा.)
	6—आनन्दपुर साहिब
	7—लुधियाना
	8—फतेहगढ़ साहिब (अ.जा.)
	9—फरीदकोट (अ.जा.)
	10—फिरोजपुर
	11—भटिण्डा
	12—संगरूर
	13—पटियाला
उत्तर प्रदेश	63—महराजगंज
	64—गोरखपुर
	65—कुशीनगर
	66—देवरिया
	67—बांसगांव (अ.जा.)
	70—घोसी
	71—सलेमपुर
	72—बलिया
	75—गाजीपुर
	76—चन्दौली
	77—वाराणसी
	79—मिर्जापुर
	80—राबर्ट्सगंज (अ.जा.)
पश्चिम बंगाल	16—दमदम
	17—बारासात
	18—बसीरहाट
	19—जयनगर (अ.जा.)
	20—मथुरापुर (अ.जा.)
	21—डायमण्ड हारबर
	22—जादवपुर
	23—कोलकाता दक्षिण
	24—कोलकाता उत्तर
चंडीगढ़	1—चंडीगढ़

[फा.सं.एच.—11024(4)/2023—वि. II]

दिवाकर सिंह
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी।

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 07th May, 2024
Vaisakha 17, 1946 (SAKA)

S.O. (E).— Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Seventeenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union Territory, as the case may be, of Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and Chandigarh as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:—

STATE (1)	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (2)
BIHAR	29-Nalanda
	30-Patna Sahib
	31-Pataliputra
	32-Arrah
	33-Buxar
	34-Sasaram (SC)
	35-Karakat
	36-Jahanabad
HIMACHAL PRADESH	1-Kangra
	2-Mandi
	3-Hamirpur
	4-Shimla (SC)
JHARKHAND	1-Rajmahal (ST)
	2-Dumka (ST)
	3-Godda
ODISHA	5-Mayurbhanj (ST)
	6-Balasore
	7-Bhadrak (SC)
	8-Jajpur (SC)
	15-Kendrapara
	16-Jagatsinghpur (SC)
PUNJAB	1-Gurdaspur
	2-Amritsar
	3-Khadoor Sahib
	4-Jalandhar (SC)
	5-Hoshiarpur (SC)

	6-Anandpur Sahib
	7-Ludhiana
	8-Fatehgarh Sahib (SC)
	9-Faridkot (SC)
	10-Firozpur
	11-Bathinda
	12-Sangrur
	13-Patiala
UTTAR PRADESH	63-Maharajganj
	64-Gorakhpur
	65-Kushi Nagar
	66-Deoria
	67-Bansgaon (SC)
	70-Ghosi
	71-Salempur
	72-Ballia
	75-Ghazipur
	76-Chandauli
	77-Varanasi
WEST BENGAL	79-Mirzapur
	80-Robertsganj (SC)
	16-Dum Dum
	17-Barasat
	18-Basirhat
	19-Jaynagar (SC)
	20-Mathurapur (SC)
	21-Diamond Harbour
	22-Jadavpur
	23-Kolkata Dakshin
	24-Kolkata Uttar
CHANDIGARH	1-Chandigarh

[F. No. H-11024(4)/2023-Leg.II]

DIWAKAR SINGH

Joint Secretary and Legislative Counsel.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

अधिसूचना

दिनांक : 07 मई, 2024

17 वैशाख, 1946 (शक)

सं. 464/ईपीएस/2024(7).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्गत और भारत के राजपत्र में 07 मई, 2024 (मंगलवार)

को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य-क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा की है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में—

(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के रूप में **14 मई, 2024 (मंगलवार)** को;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में **15 मई, 2024 (बुधवार)** को;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख के रूप में **17 मई, 2024 (शुक्रवार)** को;

(घ) नीचे दी गई **अनुसूची** के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और

(ङ) **6 जून, 2024 (गुरुवार)** को उस तारीख के रूप में, जिससे पहले ऊपर उल्लिखित सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा;

नियत करता है; और

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा ।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तिथि और मतदान का समय चरण—VII

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खंड	मतदान की तिथि	मतदान का समय
1	2	3	4
बिहार	29—नालन्दा	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	30—पटना साहिब	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	31—पाटलिपुत्र	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	32—आरा	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	33—बक्सर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	34—सासाराम (अ.जा.)		
	204—मोहनिया (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक

	205—भभुआ वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	206—चैनपुर वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	306 मतदान केंद्रों (सं. 1 से 237, 245 से 313,) के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे शेष 53 मतदान केंद्रों के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	207—चेनारी (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	26 मतदान केंद्रों (सं. 88, 97 से 99, 190 से 194, 197, 198, 256 से 261, 290, 291, 297, 299 से 302, 306, 310) के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे शेष 298 मतदान केंद्रों के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	208—सासाराम वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	209—करगहर वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	35—काराकाट		
	211—नोखा वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	212—डिहरी वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	213—काराकाट वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	219—गोह वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	48 मतदान केंद्रों (सं. 165, 166, 170, 193, 221, 227, 228, 230 से 238, 245 से 253, 257, 258, 268 से 272, 274 से 282, 287 से 289, 293, 295, 300, 321) के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे शेष 284 मतदान केंद्रों के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	220—ओबरा वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	221—नवीनगर वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	24 मतदान केंद्रों (सं. 218, 219, 226, 242, 267, 268, 270 से 272, 274 से 277, 280 से 283, 289 से 291, 315, 316, 319, 320) के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे शेष 296 मतदान केंद्रों के लिए पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	36—जहानाबाद	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
हिमाचल प्रदेश	1—कांगड़ा	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	2—मण्डी	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	3—हमीरपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक
	4—शिमला (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाहन 07:00 से अपराहन 6:00 बजे तक

झारखंड	1—राजमहल (अ.ज.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 5:00 बजे तक
	2—दुमका (अ.ज.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 5:00 बजे तक
	3—गोडडा	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 5:00 बजे तक
ओडिशा	5—मयूरभंज (अ.ज.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	6—बालासोर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	7—भाद्रक (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	8—जाजपुर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	15—केन्द्रपाडा	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	16—जगतसिंहपुर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
पंजाब	1—गुरदासपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	2—अमृतसर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	3—खडूर साहिब	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	4—जालंधर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	5—होशियारपुर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	6—आनंदपुर साहिब	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	7—लुधियाना	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	8—फतेहगढ़ साहिब (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	9—फरीदकोट (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	10—फिरोजपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	11—भटिण्डा	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	12—संगरूर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	13—पटियाला	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
उत्तर प्रदेश	63—महाराजगंज	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	64—गोरखपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	65—कुशीनगर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	66—देवरिया	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	67—बांसगांव (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	70—घोसी	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक

	71—सलेमपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	72—बलिया	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	75—गाजीपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	76—चंदौली	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	77—वाराणसी	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	79—मिर्जापुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	80—राबर्ट्सगंज (अ.जा.)		
	383—चकिया (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	400—घोरावल वि.स.नि. क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	401—राबर्ट्सगंज वि.स. नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 4:00 बजे तक
पश्चिम बंगाल	402—ओबरा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	403—दुद्धी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 4:00 बजे तक
	16—दमदम	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	17—बारासात	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	18—बसीरहाट	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	19—जयनगर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	20—मथुरापुर (अ.जा.)	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	21—डायमण्ड हारबर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	22—जादवपुर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	23—कोलकाता दक्षिण	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
चंडीगढ़	24—कोलकाता उत्तर	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक
	1—चंडीगढ़	01.06.2024 (शनिवार)	पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक

आदेश से,

संजीव कुमार प्रसाद
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

NOTIFICATION

Dated: the 7th May, 2024
17 Vaisakha, 1946 (Saka)

No. 464/EPS/2024(7).—WHEREAS, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 07th May, 2024 (Tuesday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby—

- (A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule:—
- (a) **the 14th May, 2024 (Tuesday)**, as the last date for making nominations;
 - (b) **the 15th May, 2024 (Wednesday)**, as the date for scrutiny of nominations;
 - (c) **the 17th May, 2024 (Friday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
 - (d) the date specified in column (3) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and
 - (e) **the 6th June, 2024 (Thursday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and
- (B) **Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

SCHEDULE

Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll
PHASE-VII

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/ Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
BIHAR	29-Nalanda	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	30-Patna Sahib	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	31-Pataliputra	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	32-Arrah	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	33-Buxar	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	34-Sasaram (SC)		

	204- Mohania (SC) AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	205-Bhabua AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	206-Chainpur AC	01.06.2024 (Saturday)	<u>For 306 Polling Stations</u> (Polling Station Nos. 1-237, 245-313) 07:00 A.M. to 6:00 P.M. <u>For remaining 53 Polling Stations</u> 07:00 A.M. to 4:00 P.M.
	207-Chenari (SC) AC	01.06.2024 (Saturday)	<u>For 26 Polling Stations</u> (Polling Station Nos.88, 97-99, 190-194, 197, 198, 256-261, 290, 291, 297, 299-302, 306, 310) 07:00 A.M. to 4:00 P.M. <u>For remaining 298 Polling Stations</u> 07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	208- Sasaram AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	209- Kargahar AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	35-Karakat		
	211- Nokha AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	212- Dehri AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	213- Karakat AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	219- Goh AC	01.06.2024 (Saturday)	<u>For 48 Polling Stations</u> (Polling Station Nos.165, 166, 170, 193, 221, 227, 228, 230-238, 245-253, 257, 258, 268-272, 274-282, 287-289, 293, 295, 300, 321) 07:00 AM to 05:00 PM <u>For remaining 284 Polling Stations</u> 07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	220- Obra AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	221- Nabinagar AC	01.06.2024 (Saturday)	<u>For 24 Polling Stations</u> (Polling Station Nos.218, 219, 226, 242, 267, 268, 270-272, 274-277, 280-283, 289-291, 315, 316, 319, 320) 07:00 AM to 05:00 P.M. <u>For remaining 296 Polling Stations</u> 07:00 AM to 6:00 P.M.

	36-Jahanabad	01.06.2024 (Saturday)	07:00 AM to 6:00 P.M.
HIMACHAL PRADESH	1-Kangra	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	2-Mandi	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	3-Hamirpur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	4-Shimla (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
JHARKHAND	1.Rajmahal (ST)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 5:00 P.M.
	2-Dumka (ST)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 5:00 P.M.
	3-Godda	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 5:00 P.M.
ODISHA	5-Mayurbhanj (ST)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	6-Balasore	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	7-Bhadrak (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	8-Jajpur (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	15-Kendrapara	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	16-Jagatsinghpur (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
PUNJAB	1-Gurdaspur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	2-Amritsar	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	3-Khadoor Sahib	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	4-Jalandhar (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	5-Hoshiarpur (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	6-Anandpur Sahib	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	7-Ludhiana	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	8-Fatehgarh Sahib (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	9-Faridkot (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	10-Firozpur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	11-Bathinda	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	12-Sangrur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	13-Patiala	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
UTTAR PRADESH	63-Maharajanjan	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	64-Gorakhpur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	65-Kushi Nagar	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	66-Deoria	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	67-Bansgaon (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	70-Ghosi	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	71-Salempur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	72-Ballia	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	75-Ghazipur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	76-Chandauli	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.

	77-Varanasi	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	79-Mirzapur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	80-Robertsganj (SC)		
	383-Chakia (SC) AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	400-Ghorawal AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	401-Robertsganj AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 4:00 P.M.
	402-Obra (ST) AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	403-Duddhi (ST) AC	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 4:00 P.M.
WEST BENGAL	16-Dum Dum	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	17-Barasat	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	18-Basirhat	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	19-Jaynagar (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	20- Mathurapur (SC)	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	21-Diamond Harbour	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	22-Jadavpur	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	23- Kolkata Dakshin	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
	24-Kolkata Uttar	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.
CHANDIGARH	1-Chandigarh	01.06.2024 (Saturday)	07:00 A.M. to 6:00 P.M.

By order,

SANJEEV KUMAR PRASAD,
Secretary to the Election
Commission of India.